



अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ (एबीटी मीटर) की स्थापना हेतु अनुमति के लिए आवेदन तथा स्थल निरीक्षण एवं मीटर की सीलिंग हेतु अनुरोध करने संबंधी दिशानिर्देश

चरण 1 – पंजीकरण

- पंजीकरण प्रपत्र की संबंधित फील्डों में जनरेटर/उपभोक्ता कंपनी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एवं अन्य विवरण को भरें तथा **Register** बटन पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात, भरी गई ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को **One Time Password** (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात, लॉगिन विवरण पंजीकृत ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर प्रेषित कर दिया जाएगा।

चरण 2 – लॉगिन

- संबंधित फील्डों में अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी तथा पासवर्ड भरें तथा **Login** बटन पर क्लिक करें।

आवेदक को प्रथम लॉगिन पर सुरक्षा कारणों से अपना स्वतः जनित पासवर्ड बदलना होगा।

चरण 3 – मीटर की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त करें

- सफलतापूर्वक लॉगिन के पश्चात, आवेदक को एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तदोपरांत, मीटर स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त करें साइड मेन्यू पर क्लिक करें तथा संबंधित सेक्शन में निम्न विवरण दर्ज करें:
 - मूल विवरण
 - जनरेटर/उपभोक्ता कंपनी का नाम
 - पंजीकृत कार्यालय का पता
 - पत्राचार हेतु पता
 - संपर्क विवरण
 - प्रमुख संपर्क व्यक्ति का नाम एवं उनका पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी
 - वैकल्पिक संपर्क व्यक्ति का नाम एवं उनका पदनाम, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी
 - परियोजना का विवरण
 - उपकेंद्र का नाम
 - कनेक्टेड वोल्टेज स्तर (केवी)
 - संयोजन भार (मेगावाट)
 - उपकेंद्र का स्वामी
 - फीडर की प्रवृत्ति



- ज़ोनल डिस्कॉम क्षेत्र
- पारेषण का ज़ोनल क्षेत्र
- उपकरण का नाम (एबीटी/सीटी/पीटी)

उक्त विवरण दर्ज करने के पश्चात, अनुरोध यूपीपीटीसीएल (कॉर्पोरेशन) को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेशन तत्पश्चात अनुरोध को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा। अनुरोध की स्थिति आवेदक को उनके लॉगिन पर प्रदर्शित होगी एवं स्थिति को एसएमएस व ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

चरण 4 – स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध करें

- यदि मीटर की स्थापना हेतु अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो आवेदक को स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध करना होगा। अनुरोध करने हेतु **स्थल निरीक्षण हेतु अनुरोध** साइड मेन्यू पर क्लिक करें तथा संबंधित आवेदन के **Raise Request** बटन पर क्लिक करें।
- तत्पश्चात, संबंधित फ़ील्डों में उपकरणों का पर्चेज़ ऑर्डर, जिसे मीटर स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त करते वक्त चुना गया था, तथा वेंडर से निरीक्षण बुलावा पत्र अपलोड करें। अपलोड की जाने वाली फ़ाइल **PDF** प्रारूप में होनी चाहिए जिनके प्रत्येक का साइज़ **2 MB** से अधिक न हो। साथ ही संबंधित फ़ील्ड में निरीक्षण हेतु स्थल का पता भरें तथा **Raise Request** बटन पर क्लिक करें।
- अनुरोध दर्ज होने के पश्चात उसे कॉर्पोरेशन को प्रेषित कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेशन तदोपरांत स्थल निरीक्षण हेतु एक अधिकारी को नामित करेगा। स्थल निरीक्षण के पश्चात, अधिकारी स्थल को साध्य/असाध्य घोषित करेंगे। निरीक्षण की स्थिति आवेदक के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी एवं स्थिति को एसएमएस व ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

चरण 5 – मीटर की सीलिंग हेतु अनुरोध करें

- यदि कॉर्पोरेशन अधिकारी द्वारा निरीक्षण में स्थल को साध्य घोषित किया जाता है तो आवेदक को मीटर की सीलिंग हेतु अनुरोध करना होगा। अनुरोध करने हेतु **मीटर की सीलिंग हेतु अनुरोध** साइड मेन्यू पर क्लिक करें तथा संबंधित आवेदन के **Raise Request** बटन पर क्लिक करें।
- अनुरोध को तदोपरांत कॉर्पोरेशन को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। कॉर्पोरेशन द्वारा तदोपरांत मीटर सीलिंग हेतु एक अधिकारी को नामित किया जाएगा। मीटर सीलिंग के पश्चात, अधिकारी द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। आवेदक उसकी स्थिति अपने लॉगिन से देख सकेंगे एवं स्थिति को एसएमएस व ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।